

Date: 04th August, 2018

To,
The Manager – Listing,
Deptt. of Corporate Services
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001

Company Code: 534612
ISIN: INE436N01029

SUB: Newspaper Advertisement of Notice of the Board Meeting pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,


This is to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice of the Meeting of Board of Directors of the Company to be held on Monday, the 13th August, 2018 at 10:30 A.M. at Corporate Office of the Company at Plot No. 19 & 20, Sector-142, Noida- 201305 (U.P.), has been published in two Newspapers i.e. one in National English Daily and other in Regional Language on 03rd August, 2018.

The copies of the advertisement are enclosed herewith for your information and record.

Kindly take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Advance Metering Technology Limited



Rakesh Dhody
AVP (Corporate Affairs)
& Company Secretary

एडवॉक्स मीटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड

CIN: L13140DL2011PLC0271394
 पंजीकृत कार्यालय: 4, सिंधिया हाउस, नई दिल्ली-110001
 मेजर कार: 9871210019
 कॉर्पोरेट कार्यालय: 00, ब्रह्मर, लॉट नं. 10 ए 20, सेक्टर - 142, फेज-4 - 201505, पृथ्वी
 फोन: 0120-2551-003, फैक्स: 011-23324136
 वेबसाइट: www.oxfordmtr.in

सूचना
 एवढास सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक, सोमवार, 13 अगस्त, 2018 को 10:30 घंटे में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही (Q1) के लिए अर्न्तकालीन वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन और रिपोर्ट करने का है।
www.oxfordmtr.in और www.bseindia.com पर जाएं।

बाई के आदेश से
 कृप एडवॉक्स मीटरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड
 हस्ता. / -
 राधेश: दो जी
 ए. सी. टी. (कॉर्पोरेट कार्या)
 एच. जमनी: सी.एस.ओ.
 स्थान: नई दिल्ली
 तिथि: 02.08.2018

SPS INTERNATIONAL LIMITED
 CIN: L74140HR1993PLC031900
 Regd. Office: 93-B, DLF Industrial Estate, Phase-I Faridabad, Haryana-121003
 Tel No: 011-69999159
 Email ID: raধানony.nair@gmail.com
 Website: www.spsintl.co.in

ADVANCE INTIMATION OF BOARD MEETING
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47(1) (a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of SPS International Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, 10th day of August, 2018 at 04:00 P.M. at the registered office of Company at 93-B, DLF Industrial Estate, Phase-I Faridabad, Haryana-121003. Inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended on 30th June, 2018.

For SPS International Limited
 Sd/-
 (Komal Jain)
 (Company Secretary & Compliance Officer)
 Place: Faridabad
 Date: 2nd August, 2018

ADVIK LABORATORIES LIMITED
 CIN: L74899HR1994PLC038300
 Regd. Office: 138, Roz-Ka-Meo, Industrial Area, Sohna, Distt-Mewat (Haryana)-122403
 E-mail id: mail@advikindia.com
 Website: www.advikindia.com
 Tel No.: 0124-2382471, Fax: 91-11-43571047

NOTICE OF BOARD MEETING
 In pursuance to Regulation 33 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors will be held on Monday, the 13th Day of August, 2018, at the Corporate Office of the Company at 703, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001, inter alia, to consider, approve and adopt Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2018.

The said information is also available at the Company's website at www.advikindia.com and at BSE and ASE's Website at www.bseindia.com and www.seelindia.co.in
 By Order of Board
 Sd/-
 Pooja Chunt
 (Company Secretary)
 Place: New Delhi
 Date: 03.08.2018
 Mem. No. A/6272

अलीरॉक्स एग्नेसिक्स लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: 4, सिंधिया हाउस, नई दिल्ली-110001
 CIN: L74899DL1944PLC000759
 टेली: 91-11-23457390
 फैक्स: 491-11-23324136
 ई-मेल: sncell@dalmiair.com
 वेबसाइट: www.alfox.com

सूचना
 एवढास सूचित किया जाता है कि कंपनी (यूजीएन) नियमित तथा अनुदातन अर्न्तकालीन वित्तीय परिणाम 2015 के वित्तीय परिणाम 47 के साथ प्रति वित्तीय परिणाम 29 के अनुदान में कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 13 अगस्त, 2018 को आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के स्टैंडर्डलाइन अर्न्तकालीन वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे। उपरोक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.alfox.com पर उपलब्ध है।

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ भारतीय स्टेट बैंक

(भारत सरकार का उप-मण्डल कार्यालय - आरबी) मयाज रोड, कपलवासा, नई दिल्ली- 110006.
 586.co.in

द्वितीय तल, "इस्पान मवन" 85/4, संजय प्ले के नियम 8 (1) के अंतर्गत।

आर्किटेक्चर्स एवं कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, मण्डल (उत्तर प्रदेश) के अधीन विभिन्न शाखाओं में योग्य आर्किटेक्ट्स एवं कॉन्ट्रैक्टर्स से कराता है। इच्छुक आर्किटेक्ट/कॉन्ट्रैक्टर्स आवेदनों के प्रारूप की विस्तृत जानकारी हेतु www.obcindia.co.in के टेण्डर सेक्शन पर उपरोक्त सूचना को देखें। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि सोमवार 13 अगस्त, 2018 को दोपहर 3.00 बजे तक है। आवेदन उपरोक्त दोपहर 3.30 बजे आवेदनकर्ताओं / उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। आवेदनकर्ताओं, प्री-बिड मीटिंग दिनांक 10.08.18 को मण्डल कार्यालय-आगरा के उपरोक्त पते पर उपस्थित होकर आवेदन प्रक्रिया शुरू करेंगे। यदि इस सूचना में कुछ संशोधन किया जायें तो वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन के कारण बताए किसी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

दिनांक : 03.08.18

FOCUS INDUSTRIAL RESOURCE LIMITED

पंजीकृत कार्यालय: सी-41, क्लिफ्टन रोड, नई दिल्ली-110024
 वेबसाइट: www.calcoindia.com, फोन: (0120) 2569781
 ईमेल: corp.compliance@calcoindia.com
 CIN: L32111DL1985PLC021095

NOTICE OF THE 33rd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION AND BOOKING

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting will be held on Wednesday, August 29, 2018 at Farm House, 110036 at 10:30 A.M. to transact the businesses mentioned in the Notice of Meeting. The copies of aforesaid documents are being made available for inspection at the Registered Office of the Company during the hours of office on the dates mentioned above.

Further Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 173 of the Companies Act, 2013 the Register of the Members and Share Transfer Book of the Company is closed from August 23, 2018 to August 29, 2018, both inclusive, for the purpose of the 33rd Annual General Meeting.

The Company pleased to inform that pursuant to Section 173 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules made there under the Company is exercising their right to vote by Electronic means on any day between August 27, 2018 to August 29, 2018, both inclusive, on the basis of the aforesaid Notice. E-voting will commence on Sunday, August 26, 2018 at 10:00 A.M. and will end on Tuesday, August 28, 2018 at 5:00 P.M. No e-voting will be allowed on the said date and time.

For FOCUS INDUSTRIAL RESOURCE LIMITED
 Sd/-
 (Komal Jain)
 (Company Secretary & Compliance Officer)
 Place: Delhi
 Date: August 02, 2018

कैल्कोम विजन लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: सी-41, क्लिफ्टन रोड, नई दिल्ली-110024
 वेबसाइट: www.calcoindia.com, फोन: (0120) 2569781
 ईमेल: corp.compliance@calcoindia.com
 CIN: L32111DL1985PLC021095

सूचना
 कंपनी (यूजीएन) नियमित तथा अनुदातन अर्न्तकालीन वित्तीय परिणाम 2015 के वित्तीय परिणाम 47 के साथ प्रति वित्तीय परिणाम 29 के अनुदान में कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 13 अगस्त, 2018 को आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के स्टैंडर्डलाइन अर्न्तकालीन वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे। उपरोक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.calcoindia.com पर उपलब्ध है।

LTD.
 017307
 andhi Marg, New Delhi-110 001
 11-29312990
 सफ्टवेबसाइट: www.hotelclarks.com

N-AUDITED FINANCIAL RESULTS
 31st JUNE, 2018

(Rs. in Lakh except earning per share)

S. No.	Quarter Ended	Year Ended
18	31.03.2018 (Audited)	31.03.2018 (Audited)
19	30.06.2017 (Un-audited)	31.03.2018 (Audited)
45	2845.28	1711.78 9405.31




ADVANCE METERING TECHNOLOGY LIMITED
 CIN: L31401DL2011PLC271394
 Registered Office: 15th Floor, Eros Corporate
 Towers, Nehru Place, New Delhi - 110019
 Corporate Office: 06th Floor, Plot No. 10 & 20,
 Sector - 142, Noida - 201305, U.P.
 Tel: 0120-4531400. Email: corporate@okrgroup.in
 Web: www.okrgroup.in

NOTICE

Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 13th August, 2018 at 10:30 a.m. at the Corporate Office of the Company, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results for the Quarter (Q1) ended 30th June, 2018. Visit: www.okrgroup.in & www.pseindia.com

By order of the Board
 For Advance Metering Technology Limited

Place: Noida Date: 02.08.2018
 Rakesh Dhody
 AVP (Corporate Affairs)
 & Company Secretary



Ballarpur

Regd. Office: P.O. Ballarpur

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2018

Sr. No.	Particulars
1	Total Income from operations
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Extraordinary items)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Extraordinary items)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)
5	Total Comprehensive Income for the Period Profit / (Loss) for the period (after tax) and Comprehensive Income (after tax)
6	Equity Share Capital
7	Reserves/Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (For comparison purpose only) Basic: Diluted:

Notes:-

- The above results have been reviewed at the meeting held on 1st August-2018. Limited by the Requirements) Regulations, 2015 has been complied with.
- These results have been prepared in accordance with the Accounting Standards prescribed under the Companies Act, 2013.

... June 30, 2018 have been stated in terms of

By Order of the Board
 For Makers Laboratories Limited
 Saahil Parikh
 Whole Time Director
 (DIN 00400079)

INVEST LIMITED

S G Highway, Ahmedabad -380015, Gujarat
 Tel No: +91-79-40320311

Shareholders of Dhanvarsha Finvest Limited
 Investment Limited, ("Manager to the Offer"),
 in connection with the offer made by the Acquirer,
 India (Substantial Acquisition of Shares and
 Public Statement ("DPS") with respect to the
 (English) (all editions), (ii) Jansatta (Hindi)
 Bharat (Marathi) (Mumbai edition)

	Proposed in the Offer Document	Actuals
	₹ 21	₹ 21
	35,10,000	6,90,000
	35,10,000	6,90,000

SAMTEX FASHIONS LIMITED
 CIN: L17112UP1993PLC022479
 Regd Office: Property No. D-100 Phase II, Hostelry
 Complex, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201305
 Website: www.samtexfashions.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 14th August, 2018 at 4.00 P.M. at the Corporate Office at New Delhi, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial (Provisional) Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2018.

Place: New Delhi Date: 01.08.2018
 For Samtex Fashions Limited
 Kamini Gupta
 Company Secretary & GM Finance

NOTICE INVITING BID PACKAGE NO. 8/2018-2019 (2nd CALL) OF SE, NHC-II

The S.E., N.H.Circle No.-II, P.W.(Roads) Directorate for and on behalf of Governor of West Bengal invites international electronic online Bids for the work "Providing periodic

